



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ख० 228]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 1980/श्रावण 8, 1902

No. 228]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 1980/SRAVANA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

(कानून और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1980

सा०का०वि० 455 (अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित अधिनियम भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार "केरल सरकार" के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और भागे संशोधन करने के लिए, एनक्टास निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1980 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की धारा 4 में "केरल" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली शक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"केरल"

1. राज्य सरकार के अधीन करिष्ठ पद	46
पुलिस महानिरीक्षक	1
निदेशक-सतर्कता (जांच)	1
कमांडेंट जनरल होमगार्ड, सिविल डिफेंस और अग्नि सेवा	1

पुलिस उप महानिरीक्षक (रैंज)	3
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी०आई०डी० तथा रेलवे	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (ए०पी० बटालियन)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध और जांच)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
अपर पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस आयुक्त, बिबेन्द्रम	1
पुलिस आयुक्त, एर्नाकुलम नगर	1
पुलिस आयुक्त, कालीकट	1
कमांडेंट महत्त्व पुलिस बटालियन	3
पुलिस अधीक्षक, सिविल पुलिस स्कूल	1
पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच	2
पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच सी०आई०डी०	3
पुलिस अधीक्षक, रेलवे	1
पुलिस अधीक्षक, जिला	11
पुलिस अधीक्षक सतर्कता	3
पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान स्कूल	1
प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालिब	1
संयुक्त पुलिस अधीक्षक (उप-प्रभाग)	3

48

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उक्त 1 के हिसाब से	40 प्रतिशत के	18
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार प्रोन्नति और न्यूनता द्वारा भरे जाने वाले पद उक्त 1 तथा 2 के 33 1/3 प्रतिशत के हिसाब से		21
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर)		43
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उक्त 4 के 22.5 प्रतिशत के हिसाब से		10
6. छुट्टी रिजर्व उक्त 4 के 5.62 प्रतिशत के हिसाब से		2
7. कनिष्ठ पद, उक्त 4 के 23.17 प्रतिशत के हिसाब से		10
8. प्रशिक्षण रिजर्व, उक्त 4 के 11.91 प्रतिशत के हिसाब से		5
सीधी भर्ती वाले पद		70
पदोन्नति वाले पद		21
कुल प्राधिकृत पद संख्या		91

Deputy Inspector General of Police (Crime Investigation)	1
Deputy Inspector General of Police (Administration)	1
Assistant Inspector General of Police	1
Additional Assistant Inspector General of Police	1
Commissioner of Police, Trivandrum	1
Commissioner of Police, Ernakulam City	1
Commissioner of Police, Calicut	1
Commandant Armed Police Battalions	3
Superintendent of Police, Civil Supplies Cell	1
Superintendents of Police, Special Branch, CID	2
Superintendents of Police, Crime Branch, CID	3
Superintendent of Police (Railways)	1
Superintendents of Police (Districts)	11
Superintendents of Police (Vigilance)	3
Superintendent of Police (Crime Research Cell)	1
Principal, Police Training College	1
Joint Superintendent of Police (Sub-Divisions)	3
	46

शेष ध्यान दीजिए—संशोधित गठन के पूर्व तथा जैसे कि उपरोक्त अधिसूचना में दिया गया है, केरल की कुल प्राधिकृत पद संख्या 78 थी।

[सं० 11052/1/80-आ०भा०से० (II)-क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

(NOTIFICATION)

New Delhi, 30th July, 1980

G.S.R. 455 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of "KERALA" hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) 3rd Amendment Regulations, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "KERALA" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"KERALA"	
1. Senior posts under the State Government	46
Inspector General of Police	1
Director of Vigilance (Investigation)	1
Commandant General, Home Guards, Civil Defence and Fire Services	1
Deputy Inspectors General of Police (Ranges)	3
Deputy Inspector General of Police (Crime Investigation Department and Railways)	1
Deputy Inspector General of Police (Vigilance)	1
Deputy Inspector of General Police (Training)	1
Deputy Inspector General of Police (A.P. Battalions)	1

2. Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	18
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 33-1/3 % of 1 and 2 above.	21
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	43
5. Deputation Reserve at 22.5% of 4 above	10
6. Leave Reserve @ 5.62% of 4 above	2
7. Junior posts @ 23.17% of 4 above	10
8. Training Reserve @ 11.91% of 4 above	5
Direct Recruitment Posts	70
Promotion posts	21
Total authorised strength	91

N.B.:—The total authorised cadre strength of Kerala prior to the revised composition and strength as given in the above notification was 78.

[No. 11052/1/80-AIS(II)-A]

सांका०नि० 456 (ब)—भारतीय पुलिस सेवा (बेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अधिनियम भारतीय सेवाएं अधिनियम-1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रस्तावित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केरल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (बेतन) नियम, 1954 में और धाने संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (बेतन) छठवां संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में :—

(क) अनुसूची-III-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद की सारणी में "केरल" के पहले कॉलम में आने वाली प्रविष्टि तथा दूसरे और तीसरे कॉलमों में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"केरल"

पदों का विवरण	वेतन/वेतनमान ₹
पुलिस महानिरीक्षक	₹ 2500-125/2-2750
निदेशक सतर्कता (जांच)	₹ 2500-125/2-2750
कमांडेंट जनरल होम गार्ड सिविल डिफेंस और अग्नि सेवा	₹ 2500-125/2-2750
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज)	₹ 2000-125/2-2250
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी०आई०डी० तथा रेलवे	₹ 2000-125/2-2250
पुलिस उप महानिरीक्षक (सतर्कता)	₹ 2000-125/2-2250
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)	₹ 2000-125/2-2250
पुलिस उप महानिरीक्षक (ए०पी० बटालियन)	₹ 2000-125/2-2250
पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध और जांच)	₹ 2000-125/2-2250
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)	₹ 2000-125/2-2250

(ख) अनुसूची-III ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतनों वाले पद समेत) सारणी में "केरल" के पहले कॉलम में आने वाली प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पुलिस सहायक महानिरीक्षक
पुलिस प्रमुख महानिरीक्षक
पुलिस आयुक्त, त्रिवेन्द्रम
पुलिस आयुक्त, एर्नाकुलम नगर
पुलिस आयुक्त, काशीकट
कमांडेंट, मणमथ पुलिस बटालियन
पुलिस अधीक्षक, सिविल पूति स्कंध
पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच
पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच सी०आई०डी०
पुलिस अधीक्षक, रेलवे,
पुलिस अधीक्षक जिला
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता
पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान स्कंध
प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालेज
पुलिस संयुक्त अधीक्षक उप प्रभाग"

[सं० 11052/1/80-आ०आ०से० (II)-ख]

बी० आर० श्रीनिवासन, अवर सचिव

G.S.R. 456 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Kerala, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) 6th Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In 'Schedule III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Governments' in the Table, for the entry "Kerala" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns the following shall be substituted, namely :—

"KERALA"

Particulars of posts	Scale of Pay, Rs.
Inspector General of Police	2500-125/2-2750
Director of Vigilance (Investigation)	2500-125/2-2750
Commandant General, Home Guards, Civil Defence and Fire Services.	2500-125/2-2750
Deputy Inspector General of Police (Ranges).	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police (Crime Investigation Department and Railways).	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police (Vigilance)	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police (Training).	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police, (A.P. Battalions).	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police, (Crime Investigation).	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police, (Administration).	2000-125/2-2250

(b) In 'Schedule III-B Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)' in the Table, for the entry "Kerala" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Assistant Inspector General of Police.
Additional Assistant Inspector General of Police.
Commissioner of Police, Trivandrum.
Commissioner of Police, Ernakulam City.
Commissioner of Police, Calicut.
Commandants Armed Police Battalions.
Superintendent of Police, Civil Supplies Cell.
Superintendents of Police, Special Branch, CID.
Superintendents of Police Crime Branch, CID.
Superintendents of Police (Railways).
Superintendents of Police (Districts).
Superintendents of Police (Vigilance)
Superintendent of Police (Crime Research Cell)
Principal Police Training College.
Joint Superintendents of Police (Sub-Divisions)".

[No. 11052/1/80-AIS(II)-B]
V.R. SRINIVASAN, Under Secy.

